

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 341]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 22 अगस्त 2015—श्रावण 31, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2015

मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक/बी-11/03/2015/14-2, दिनांक 15.5.2015 द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत मौसम खरीफ 2015 हेतु पटवारी हल्का स्तर की अधिसूचना जारी की गई थी, जारी अधिसूचना में जिला शिवपुरी, गुना, छिन्दवाड़ा, शहडोल, सतना, धार, विदिशा, बैतूल डिण्डोरी, झाबुआ एवं जिला छिन्दवाड़ा के ग्रामों की संशोधित सूची संलग्न अनुसार उनके समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है। मौसम खरीफ वर्ष 2015 की पटवारी हल्का स्तर की संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना मौसम खरीफ 2015 की पटवारी हल्का स्तर की संशोधित सूची

मौसम	खरीफ	वर्ष	2015-2016	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची								
				जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर
शिवपुरी	कोलारस	1-कोलारस	21	मोहरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			22	चंदेनी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			23	नेतवास	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			24	मडीखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			25	कुम्हरोआ	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			26	खोंकर	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			27	सेसई सडक	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			28	पडोरा सडक	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			29	बेंहटा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			30	टीला	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			31	गाराटीला	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			32	बैरसिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			33	कोलारस	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			34	सिंघराई	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			35	राई	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
		2-लुकवासा	36	बैडारी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			37	गुढा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			38	चंदौरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			39	भडौता	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			40	चकरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			41	साखनौर	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			42	रिजोदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			43	मोहराई	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			44	पनवारी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			45	देहरदा सडक	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			46	डोढयाई	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			47	भाटी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			48	किलावनी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-

मौसम	खरीफ	वर्ष	2015-2016	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची								
				जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर
			00025		मोहम्मदपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00026		तोरई	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00027		करेला	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00028		कजलिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00029		नलखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00030		मकसूदनगढ	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00031		परवरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00032		गारखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00033		एमनाखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00034		बारोद	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00035		कीताखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00036		दिरोली	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00037		नागनखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00038		भगवतीपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00039		बडौदकंला	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00040		उकावद	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00041		करोदी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00042		नसीरपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00043		खेराड	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00044		शाहपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00045		कादीखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00046		दुर्गपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00047		विशनखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00048		खेरखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00049		महू	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
	चाचोडा	चाचोडा	18		दैदला	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
	बमोरी	बमोरी	16		गढलाउजारी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			75		खरगपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			76		ख्यावदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	

मौसम	खरीफ	वर्ष	2015-2016	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची								
				जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर
					77	अमरोद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
					78	भूराखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
					79	मोहनपुरखुर्द	-	-	सोयाबीन	-	-	-
					80	सिमरोद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	आरोन	पनवाडी हाट			47		-	-	सोयाबीन	-	-	-
					49		-	-	सोयाबीन	-	-	-
	बमोरी	फतेहगढ़			00045	कोहन	-	-	सोयाबीन	-	-	-
					00046	अजरोडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
					00047	कुशेपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
					00048	मगरोडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
					00049	कान्सल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
					00050	किशनपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
					00051	रामनगर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
					00052	भोरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
					00053	लातानी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
					00054	चुरेला	-	-	सोयाबीन	-	-	-
					00055	बनेह	-	-	सोयाबीन	-	-	-
					00056	धनोरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
					00057	धाननखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
					00058	सुहाया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
					00059	परवाह	-	-	सोयाबीन	-	-	-
					00060	ऐदबाडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
					00061	रत्नागिर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
					00062	झागर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
					00063	मूडराहनुमान	-	-	सोयाबीन	-	-	-
					00064	सूजाखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
					00065	विश्वनगर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
					00001	कपासी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
					00002	चकलोडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-

मौसम	खरीफ	वर्ष	2015-2016	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची								
				जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर
			00003		सिलावटी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00004		जोहरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00005		बर्धा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00006		टीली	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00007		पाडोन	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00008		नरवदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00009		छिकारी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00010		बरवन	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00036		कलोरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00037		फतेहगढ	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00038		भिडरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00039		कुडका	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00040		बावडीखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00041		चीलखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00042		डिगडोली	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00043		पाठी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00044		हमीरपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
छिन्दवाडा	उमरेठ	उमरेठ	25		चारगांव	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-	
	चौद	चौद	00042		पाल्हरी	-	-	-	-	मक्का	-	
			00043		बोंका नागनपुर	-	-	-	-	मक्का	-	
			00044		पालादोन	-	-	-	-	मक्का	-	
			00045		खूट पिपरिया	-	-	-	-	मक्का	-	
			00046		बरेलीपार	-	-	-	-	मक्का	-	
			00047		मोरखा	-	-	-	-	मक्का	-	
			00048		सीदप	-	-	-	-	मक्का	-	
			00049		औरिया	-	-	-	-	मक्का	-	
			00050		हिरी	-	-	-	-	मक्का	-	
			00051		सौख	-	-	-	-	मक्का	-	
			00052		देवरी माल	-	-	-	-	मक्का	-	

मौसम	खरीफ	वर्ष	2015-2016	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची						
				पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का
			00053	आमाझिरी	-	-	-	-	मक्का	-
			00054	राजलवाडी	-	-	-	-	मक्का	-
			00055	परसोली	-	-	-	-	मक्का	-
			00056	झिरिया	-	-	-	-	मक्का	-
			00057	पांजरा	-	-	-	-	मक्का	-
			00058	चिखली खुर्द	-	-	-	-	मक्का	-
			00059	हरनाखेडी	-	-	-	-	मक्का	-
			00060	खैरी रानी	-	-	-	-	मक्का	-
			00061	बाडीवाडा	-	-	-	-	मक्का	-
			00062	लोनी कलौ	-	-	-	-	मक्का	-
			00063	कौआखेडा	-	-	-	-	मक्का	-
			00064	मोघर	-	-	-	-	मक्का	-
			00065	चौद	-	-	-	-	मक्का	-
			00066	बम्हनी टूरा	-	-	-	-	मक्का	-
			00067	नीलाझिर	-	-	-	-	मक्का	-
			00068	परसगाँव सरा	-	-	-	-	मक्का	-
			00069	नीलकंठी खुर्द	-	-	-	-	मक्का	-
			00070	निशान जानोजी	-	-	-	-	मक्का	-
			00071	नवेगाँव गौंड	-	-	-	-	मक्का	-
			00072	सालई छिन्दी	-	-	-	-	मक्का	-
			00073	सटोटी	-	-	-	-	मक्का	-
			00074	दिलावर मोहगाँव	-	-	-	-	मक्का	-
			00075	गुमगाँव	-	-	-	-	मक्का	-
			00076	बतरी	-	-	-	-	मक्का	-
			00077	तितरी	-	-	-	-	मक्का	-
			00078	बादगाँव	-	-	-	-	मक्का	-
			00079	तालगाँव	-	-	-	-	मक्का	-
			00080	मेघदीन	-	-	-	-	मक्का	-
			00081	रमपुरी	-	-	-	-	मक्का	-

मौसम	खरीफ	वर्ष	2015-2016	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची									
				जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का
			00082				पौनिया	-	-	-	-	मक्का	-
			00083				पंचगाँव	-	-	-	-	मक्का	-
			00084				बम्हनी लाला	-	-	-	-	मक्का	-
			00085				सिंधोडी	-	-	-	-	मक्का	-
			00086				सिरस	-	-	-	-	मक्का	-
			00087				साजपानी	-	-	-	-	मक्का	-
			00088				पिपरिया खाली	-	-	-	-	मक्का	-
			00089				टाप	-	-	-	-	मक्का	-
			00090				बोंसखेडा	-	-	-	-	मक्का	-
			00091				जमतारा	-	-	-	-	मक्का	-
			00092				हलाल खुर्द	-	-	-	-	मक्का	-
	जूनारदेव	जूनारदेव	00064				चिखलार	-	-	-	-	-	-
			00065				बरेलीपार	-	-	-	-	-	-
			00066				कोरपानी खुर्द	-	-	-	-	-	-
			00068				घानाउमरी	-	-	-	-	-	-
			00069				बिन्दरई	-	-	-	-	-	-
			00070				ढाकरवाडी	-	-	-	-	-	-
			00071				सातरवारी	-	धान असिंचित	-	-	मक्का	-
			00072				ऑकिया	-	-	-	-	-	-
			00073				खिडकी कनेरी	-	-	-	-	-	-
			00074				बेलगाँव माल	-	-	-	-	-	-
			00075				जम्बाकिराडी	-	-	-	-	-	-
			00076				खुमकाल	-	-	-	-	-	-
			00077				भतोडिया खुर्द	-	-	-	-	-	-
			00078				कटकुही	-	-	-	-	-	-
			00079				मोहगाँव किसन	-	-	-	-	-	-
			00080				पर्वत घोघरी	-	-	-	-	-	-
			00081				डोडासेमर	-	-	-	-	-	-
			00082				माचीघाट माल	-	-	-	-	-	-

मौसम	खरीफ	वर्ष	2015-2016	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची										
				जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
							00095	जमकण्डा	-	-	-	-	-	-
							00099	कोहनियां रैयत	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		दमुआ					00056	अवरिया	-	-	-	-	मक्का	-
							00057	मरकाढाना	-	-	-	-	मक्का	-
							00058	मनकूघाटी	-	-	-	-	मक्का	-
							00061	बोरदेई	-	-	-	-	मक्का	-
							00063	सुरनादेही कलॉ	-	-	-	-	मक्का	-
शहडोल	जयसिंहनगर	टिहकी					0003	रेउसा	-	धान असिंचित	-	-	मक्का	-
	बुढार	खैरहा					00029	देवगवां प.ह.नं. 29	-	धान असिंचित	-	-	-	-
							00030	सिरौजा प.ह.नं. 30	-	धान असिंचित	-	-	-	-
							00031	करकटी प.ह.नं. 31	-	धान असिंचित	-	-	-	-
							00032	खन्नाथ प.ह.नं. 32	-	धान असिंचित	सोयाबीन	-	-	-
							00033	छिरहटी प.ह.नं. 33	-	धान असिंचित	-	-	-	-
							00034	खैरहा प.ह.नं. 34	-	धान असिंचित	सोयाबीन	-	-	-
							00035	धमनीकलां प. ह.नं.35	-	धान असिंचित	सोयाबीन	-	-	-
							00036	सारंगपुर प.ह. नं.36	-	धान असिंचित	सोयाबीन	-	-	-
							00037	अरझुला प.ह.नं. 37	-	धान असिंचित	-	-	-	-
							00038	लखवरिया प.ह. नं.38	-	धान असिंचित	-	-	-	-
							00039	धनौरा प.ह.नं. 39	-	धान असिंचित	-	-	-	-
							00040	खोह प.ह.नं.40	-	धान असिंचित	-	-	-	-
		धनपुरी					00019	विक्रमपुर प.ह. नं.19	-	धान असिंचित	-	-	-	-
							00020	धनपुरा प.ह.नं. 20	-	धान असिंचित	सोयाबीन	-	-	-
							00021	बरतरा प.ह.नं. 21	-	धान असिंचित	सोयाबीन	-	-	-
							00022	चिटहुला प.ह. नं.22	-	धान असिंचित	-	-	-	-

मौसम	खरीफ	वर्ष	2015-2016	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची								
				जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर
			00023	गोपालपुर प.ह. न.23	-	धान असिंचित	सोयाबीन	-	-	-		
			00024	सरईकांपा प.ह. न.24	-	धान असिंचित	सोयाबीन	-	-	-		
			00025	धनपुरी प.ह.न. 25	-	धान असिंचित	सोयाबीन	-	-	-		
सतना	उचेहरा	उचेहरा	54	पौडीगरादा	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			55	गडौली	-	धान असिंचित	सोयाबीन	-	-	-		
			56	करहीकलां	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			57	करहीखुर्द	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			58	उरदना	-	धान असिंचित	सोयाबीन	-	-	-		
			59	पिपरीकला	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			60	बिहटा	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			61	गोवरांवकलां	-	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	-	-		
			62	बंदरहा	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-		
			63	खूझा	-	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	-	-		
			65	इटहा खोखरा	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-		
			66	कोरवारा	-	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	-	-		
			67	रमपुरवा	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-		
			68	इचौल	-	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	-	-		
			69	रगला	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-		
			70	नरहटी	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			71	पथरहटा	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
धार	कुक्षी	कुक्षी	50	उमरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			51	डोई	-	-	सोयाबीन	-	-	मक्का		
			57	खरगोन	-	-	सोयाबीन	-	-	मक्का		
			62	लोहारा	-	-	-	-	-	मक्का		
			73	मोगरा	-	-	-	-	-	मक्का		
			77	कापसी	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			81	गिरवान्या	-	-	सोयाबीन	-	-	-		

मौसम	खरीफ	वर्ष	2015-2016	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची							
				जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन
			82	रोजा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
	मनावर	मनावर	65	पेरखड	-	-	-	-	-	मक्का	-
		बीकानेर	67	आमसी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			81	बोहारला	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			82	दसाई	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			86	कलालदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			87	कुवाड	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			90	उटावद	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
विदिशा	त्योदा		001	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
	सिरोंज		080	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
बैतूल	आमला	आमला	00002	आवरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00003	परसोडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00004	तोरनवाडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00005	आमला	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00007	हसलपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00008	ससावड	-	धान असिंचित	सोयाबीन	-	-	-	
			00009	अंधारिया	-	धान असिंचित	सोयाबीन	-	-	-	
			00010	अम्बाडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00011	बोधिया (ब्राम्हणवाडा)	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00012	ससुन्द्रा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00013	नांन्दपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00014	रमली	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00015	परसोडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00016	रम्भाखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00017	तालावाडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00018	कनोजिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00019	खापाखतेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00020	बोरीखुर्द	-	-	सोयाबीन	-	-	-	

मौसम	खरीफ	वर्ष	2015-2016	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची						
जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
			00021	रतेडा कला	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00022	लादी वन ग्राम	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00023	जमदेही कला	-	धान असिंचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00024	बारंगवाडी	-	धान असिंचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00025	तिखडी	-		सोयाबीन	-	मक्का	-
			00026	छीपन्या पिपरीया	-	धान असिंचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00027	नरेरा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00028	जमदेही खुर्द	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00029	पिपरिया टेड	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00030	रानीडोंगरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00031	छावल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00032	देवगाँव	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00033	जम्बाडा बंजंग	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00034	जम्बाडी खुर्द	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00035	तिरम्हु	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00036	हरदोली	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00001	ठानी	-	धान असिंचित	सोयाबीन	-	-	-
		बोरदेही	00037	उमरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00038	बाबरबोह	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00039	सोनेगांव	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00040	राजेगांव	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00041	कोटर खापा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00042	बारछी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00043	सोमलापुर	-	-	-	-	मक्का	-
			00044	कुटखेडी	-	-	-	-	मक्का	-
			00045	मालेगांव	-	-	-	-	मक्का	-
			00046	हरन्या	-	-	-	-	मक्का	-
			00047	बामला	-	-	-	-	मक्का	-

मौसम		खरीफ	वर्ष	2015-2016							100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची	
जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा		
			00048	जामुन बिछवा	-	-	-	-	मक्का	-		
			00050	कलमेश्वरा	-	-	-	-	मक्का	-		
			00052	दीपा मॉडर्ड	-	-	-	-	मक्का	-		
			00053	बोरदेही	-	-	-	-	मक्का	-		
			00054	इटावा	-	-	-	-	मक्का	-		
			00055	घाटवाडी कला	-	-	-	-	मक्का	-		
			00056	हथनोरा	-	-	-	-	मक्का	-		
			00057	तरोडाकला	-	-	-	-	मक्का	-		
			00058	डंगरिया	-	-	-	-	मक्का	-		
			00059	डेहरी	-	-	-	-	मक्का	-		
			00060	कुजबा	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00061	खेडली बाजार	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00062	ब्राम्हणवाडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00063	बिछवा	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00064	मोरखा	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00065	तरोडा बुजुर्गी	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00066	डुडरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00067	बिसखान	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00068	गूबरेल	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00069	लीलाझर	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00070	काठी	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00049	कोठिया रं.	-	-	-	-	मक्का	-		
	घोडाडोंगरी	घोडाडोंगरी	00027	झाडकुंड	-	-	सोयाबीन	-	-	-		

टीप :- खरीफ 2015 की अधिसूचना में जिन ग्रामों के नाम त्रुटिपूर्ण पाये गये है उनकी संशोधित अधिसूचना के संबंध में ।

जिला	नाम तहसील	नाम रा.नि.म.	प.ह.नं.	त्रुटिपूर्ण ग्राम का नाम	निम्नानुसार संशोधन किया जाता है ।
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा-1	61	घाट पिपरिया	घाट परासिया
			56	झंझरिया खटिया	झंझरिया उर्फ खुटिया
			62	मालनवाडा	मालहनवाडा
			65	कोटलबरी	कोटलबरी
		छिन्दवाड़ा-2	01	राहेना कलों	रोहना कलों
	पांडुर्णा	पांडुर्णा	41	चिकनी	चिकली मांडवी
			50	आजनगाँव	देवखापा आजनगाँव

जिला	खरीफ	रा.नि.म.का नाम	वर्ष	2015-2016	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची					
					पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर
झाबुआ	पेटलावद	रायपुरिया	00035	कालीघाटी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00037	देवली	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00038	हमीरगढ	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00039	महुडीपाडा कला	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00040	बरबेट	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00041	जामली	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00042	अनन्तखेडी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00043	मातापाडा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00044	रूपगढ	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00045	खोरिया	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00046	नाहरपुरा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00047	उन्नई	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00048	कोदली	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00049	झोसर	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00050	मोईवागली	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00051	गोपालपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00052	कुडवास	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00053	बेडा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00054	झावलिया	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00056	मोहनकोट	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00057	रतम्बा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00058	अलस्याखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00059	रायपुरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00060	काजबी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00061	बनी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00062	कघराखदान	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00064	सलुन्या बडा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00065	पांचपिपला	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00066	बेकल्दा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00067	पीठडी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00068	बोलासा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00069	मोहकमपुरा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00070	तारखेडी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00071	कुआखेडी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00073	सेमलिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00074	झकनावदा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00075	बखतपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00076	धतुरिया	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00078	भेरूपाडा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
राणापुर	रानापुर		00001	रेतालुन्जा	-	-	-	-	मक्का	-
			00002	लम्बेला	-	-	-	-	मक्का	-
			00003	भण्डाखेडा	-	-	-	-	मक्का	-
			00004	गलती	-	-	-	-	मक्का	-
			00005	माण्डलीनाथ	-	-	-	-	मक्का	-

जिला	खरीफ	रा.नि.म.का नाम	वर्ष	2015-2016	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली घयनित फसलों की हल्कावार सूची					
					पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर
				00006	सुरडिया	-	-	-	मक्का	-
				00007	काकरादराबडा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
				00008	नागनखेडी रत्ना	-	-	-	मक्का	-
				00009	गवसर	-	-	-	मक्का	-
				00010	दोतड	-	-	-	मक्का	-
				00011	बुधाशाला	-	-	-	मक्का	-
				00012	कालापान	-	-	-	मक्का	-
				00013	भूतबयडा	-	-	-	मक्का	-
				00014	उबेराव	-	-	-	मक्का	-
				00015	धामनीनाना	-	-	-	मक्का	-
				00016	डाबतलाई	-	-	-	मक्का	-
				00017	मातासुला	धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
				00018	समोई	धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
				00019	कुशलपुरा	धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
				00020	रूपाखेडा	धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
				00021	कंजावानी खास	धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
				00022	छागोला	धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
				00023	जुनागांव	धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
				00024	सनोड	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
				00025	अंधारवड	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
				00026	खेडाअंधारवड	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
				00027	मोरडुडिया	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
				00028	माछतियाझीर	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
				00029	चुई	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
				00030	सरदारपुरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
				00031	वन	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
				00032	भूतखेडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
				00033	पुवाला	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
				00034	भूरीमाटी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
				00035	रानापुर	-	सोयाबीन	-	-	-
				00036	पाडलवा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
				00037	धामनीचमना	-	-	-	मक्का	-
				00038	टिकडीबोरिया	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
				00039	वगईबडी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
				00040	खडकुई	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
				00041	वागलावाट मोहनिया	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
				00042	भोडली	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
				00043	भोरकुडिया	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
				00044	धोल्यावड	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
				00045	छापरखाण्डा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
				00046	डिग्गी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
				00047	मोहनपुरा भूरका	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
				00048	अगैरा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ		वर्ष	2015-2016	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली घयनित फसलों की हल्कावार सूची					
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
डिंडोरी	डिंडोरी									
		अमरपुर								
			00090	नांदा माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00091	अलौनी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00092	रामगढ़		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00093	बरसिंघा माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00094	देवरी माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00095	बिलासर माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00096	खुडिया रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00097	अमरपुर		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00098	भाखा माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00099	मोहनझिर माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00100	गिठौरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00101	बटिया रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00102	खरगहना मय बसनिया		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00103	बोधघुंडी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00104	डुंडिसरई		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00105	निघोरी रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00106	भानपुर रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00110	धैवरी रैयत		-	-	-	-	-
			00112	जलेगाव रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00113	मोहारी रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00114	कोको रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00111	अधियार खोह		धानअसिंचित	-	-	-	-
		न्यौसा	00049	माधवपुर रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00050	नेवसा माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00051	बसनिया माल		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00052	पडरिया कला		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00053	पौंडी माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00054	धुरी माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00055	रुसा माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00056	उदरी माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
		बम्हनी	00128	जाताडोगरी माल		धानअसिंचित	-	-	-	-

		00129	डुगरिया रैयत	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00130	साल्हेघोरी माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00131	अण्डई रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00132	खान्ही माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00133	वरगांव रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00134	जाडासुरग	धानअसिचित	-	-	-	-
		00135	किवाड रैयत	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00136	दामी तितराही	धानअसिचित	-	-	-	-
		00137	करेगांव रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00138	किवलारी रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00139	बम्हनी माल	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00140	हडसिंगरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00141	मोहगांव रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00142	मौहती रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00143	मानिकपुर माल	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00144	सरई माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00145	भाजीटोला माल	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00146	लदवानी	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00147	अतरिया रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00148	चांदरानी	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
			सक्का					
		00074	रमपुरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00075	खैरदा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00076	सक्का	धानअसिचित	-	-	-	-
		00077	भैसवाही	धानअसिचित	-	-	-	-
		00078	उमरिया माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00079	कमरासोदा	-	-	-	-	-
		00080	बहेरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00081	धनवासी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00082	मिठया माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00083	झिलमिला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00084	खजरी माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00085	साम्हर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00086	चांदपुर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00087	सिधौली	धानअसिचित	-	-	-	-
			समनापुर					
		00115	बिलाई खार	धानअसिचित	-	-	-	-
		00117	पिपरिया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00118	मारगांव	धानअसिचित	-	-	-	-

		00119	पडरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00120	सुन्दरपुर रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-
		00123	प्रेमपुर माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00124	कोकोमट;टा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00125	नानडिण्डौरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00126	समनापुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00127	देवलपुर रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-
		00151	छांटा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00152	किचटी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00153	माधोपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00154	कचनपुर माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00155	खाम्हा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00156	कुकराभठ		धानअसिचित	-	-	-	-
		00157	बुडरूखी		धानअसिचित	-	-	-	-
	बजाग								
		करजिया							
		00209	पाटनगढ माल		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00211	काटीगहन रैयत		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00212	परसेल माल		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00222	जारासुरंग माल		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00223	उमरिया रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-
		00224	बरबसपुर माल		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00225	सेनगुडा रैयत		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00226	रूसा माल		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00227	बुन्देला रैयत		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00228	रामनगर रैयत		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00229	बरनई माल		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00230	मेढारखार माल		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00231	गारकामट्टा रैयत		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00232	किरंगी माल		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00233	खन्नात माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00234	करजिया माल		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00235	बोदर रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-
		00236	रैतवार माल		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00237	नारी ग्वारा		धानअसिचित	-	-	-	-
	गाडासरई								
		00158	गीधा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00159	पिण्डरूखी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00160	कारोपानी		धानअसिचित	-	-	-	-

			00161	खरगहना		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00162	बिड़ौली माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00163	सुनियामार माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00164	कोडिया		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00166	उफरी माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00167	बोदर माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00168	सुनपुरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00169	सुकुलपुर माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00170	बरगांव माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00171	केवलारी माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00172	करोदा माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00173	गिरवरपुर माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00174	बछरगांव माल		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00195	बरसोत माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00196	मझियाखार माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00197	गन्नागूडा		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00198	शोभापुर		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00199	किकरा तालाब रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00200	परसवाह		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00201	पथरकुपा रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-
				गोरखपुर						
			00202	मोहतरा		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00203	भूसा मुण्डी माल		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00204	बहन्नी उर्फ धवा झंगरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00205	गोरखपुर माल		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00206	चन्दना रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00207	मानिकपुर रैयत		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00208	भुसण्ड माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00210	भलखोहा माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00213	सैलवारा		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00214	विठनदेह		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00215	झनकी माल		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00216	सदवाछापर		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00217	बाहरपुर रैयत		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00218	जुगदेही		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00219	खाम्हाखुदरा		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00220	चकमी माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00221	गोपालपुर		धानअसिंचित	-	-	-	-

		बजाग	00175	घोपतपुर माल	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
			00177	सरवाही माल	धानअसिचित	-	-	-	-
			00178	सिधपुर माल	धानअसिचित	-	-	-	-
			00179	आमा डोंगरी	धानअसिचित	-	-	-	-
			00180	दुल्लोपुर	धानअसिचित	-	-	-	-
			00181	पडरिया डोंगरी	धानअसिचित	-	-	-	-
			00184	सारंगपुर माल	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
			00185	भानपुर माल	धानअसिचित	-	-	-	-
			00186	मिदली रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
			00187	भुरसी माल	धानअसिचित	-	-	-	-
			00188	बिलईखार माल	धानअसिचित	-	-	-	-
			00189	अंगई माल	धानअसिचित	-	-	-	-
			00190	सिंगारसती रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
			00191	विक्रमपुर माल	धानअसिचित	-	-	-	-
			00192	तालपुर माल	धानअसिचित	-	-	-	-
			00193	धनीली माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		शाहपुरा							
		अमेरा							
			00036	पिपरिया कला	धानअसिचित	-	-	-	-
			00037	पलकी रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
			00038	अमठेरा	धानअसिचित	-	-	-	-
			00065	दूबामाल	धानअसिचित	-	-	-	-
			00067	मालपुर माल	धानअसिचित	-	-	-	-
			00068	अमेरा	धानअसिचित	-	-	-	-
			00069	राखी माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		कोहानीदेवरी							
			00017	पिपरिया माल	धानअसिचित	-	-	-	-
			00019	सरसवाही माल	धानअसिचित	-	-	-	-
			00020	बढईगढ माल	धानअसिचित	-	-	-	-
			00021	ददरगांव	धानअसिचित	-	-	-	-
			00022	मटका रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
			00023	खैरभगदू माल	धानअसिचित	-	-	-	-
			00047	गुरैया	धानअसिचित	-	-	-	-
			00048	दल्काखम्हरिया माल	धानअसिचित	-	-	-	-
			00049	देवरी कला	धानअसिचित	-	-	-	-
			00050	कंजेहरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		बिछिया							
			00051	गुतलवाह	धानअसिचित	-	-	-	-
			00052	रावन कुण्ड	धानअसिचित	-	-	-	-

		00053	टिकरा सरई उर्फ बांसा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00054	दल्कासरई माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00055	छपरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00056	कटंगी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00058	देवरी कला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00059	बडझर माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00060	मोहनी माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00071	बिलगदा माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00072	कुटरई माल	धानअसिचित	-	-	-	-
	मंहदवानी	00076	मनेरी रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00078	सारस डोली माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00079	कोसम घाट	धानअसिचित	-	-	-	-
		00080	सूरजपुरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00082	डोकरघाट	धानअसिचित	-	-	-	-
		00083	मटियारी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00084	मंहदवानी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00085	डुलहरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00086	भुरका	धानअसिचित	-	-	-	-
		00087	धमनी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00088	कठौतिया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00089	बरई	धानअसिचित	-	-	-	-
		00090	खजरी माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00091	पारापानी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00092	खजरवारा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00093	सरसी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00095	पडरिया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00096	उमरिया रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00097	सुखलौडी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00098	जरहानैझर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00099	पायली	धानअसिचित	-	-	-	-
		00100	जैतपुर	धानअसिचित	-	-	-	-
	रयपरा	00002	पायलीघुघरी माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00003	घिरवन कला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00007	घुसिया रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00008	डोभी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00009	देवगांव माल	धानअसिचित	-	-	-	-

		00010	सरसवाही माल	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00011	मानिकपुर	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00012	भरौली माल	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00013	रयपुरा माल	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00014	दुल्लोपुर	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00015	सांगवा	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00016	सरई माल	धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
		00028	पडरिया कला	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00029	घिरवन खुर्द	धानअसिंचित	-	-	-	-
	राई	00102	छौरपानी	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00103	पटरीटोला माल	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00104	राघोपुर माल	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00105	खम्हरिया	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00106	चौबीसा माल	धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
		00107	कलगीटोला माल	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00108	भलवारा	धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
		00109	जरगुडा	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00110	राई	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00111	खरगवारा	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00112	भौडासाज माल	धानअसिंचित	-	-	-	-
	शहपुरा	00024	देवरी खुर्द	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00025	भीमपार	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00026	नरवाही	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00027	बरोदी माल	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00030	टिकरिया	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00031	संग्रामपुर माल	धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
		00032	गनेशपुर	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00033	झगरहटा डुंगरिया	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00035	ढौडा रैयत	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00039	बिलगांव	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00040	बरगांव	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00041	करोदी	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00042	बांकी	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00043	रनगांव	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00044	शहपुरा	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00045	बिजौरी माल	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00046	बरखेडा माल	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00061	कारी गडहरी माल	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00062	कंचनपुर माल	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00063	इन्दौरी माल	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00064	चन्दवाही माल	धानअसिंचित	-	-	-	-